



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 आश्विन 1938 (श0)

(सं0 पटना 806) पटना, सोमवार, 3 अक्टूबर 2016

वित्त विभाग

अधिसूचना

30 सितम्बर 2016

सं० एम-4-12/2015-7806/वि०—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 283(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल बिहार वित्त नियमावली, 1950 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-131अ के उपनियम-(ग) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ-(1) यह नियमावली बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2016 कही जा सकेगी ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगी ।

2. वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या-1682/वि०, दिनांक 01.03.2016 द्वारा बिहार वित्त नियमावली, 1950 के नियम-131अ के उपनियम-(ग) में किये गये प्रावधान में प्रावधानित शब्द समूह “एक मात्र निविदा शेष हो” के स्थान पर “एक मात्र निविदा शेष हो अथवा प्रथम बार की गयी निविदा में कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हो” प्रतिस्थापित किया जाता है । तदनुसार प्रावधान निम्न होंगे:-

“क्रेता विभाग द्वारा प्राप्त तकनीकी बोली (Technical Bid) का मूल्यांकन सक्षम समिति या प्राधिकारी के द्वारा किये जाने के पश्चात वित्तीय बोली (Financial Bid) के मूल्यांकन हेतु एक मात्र निविदा शेष हो अथवा प्रथम बार की गयी निविदा में कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हो तो उसके लिए तुरंत दोबारा निविदा आमंत्रित की जायेगी । अगर दोबारा निविदा आमंत्रण के बाद भी तकनीकी बोली के मूल्यांकन के पश्चात वित्तीय बोली के मूल्यांकन हेतु एक ही निविदा शेष हो, तो उस विषय का निपटारा सक्षम प्राधिकार से एक स्तर के उपर के प्राधिकार द्वारा किया जायेगा ।”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राहुल सिंह,
सचिव (व्यय) ।

The 30th September 2016

No. M-4-12/2015-7806/F.—In exercise of the powers conferred under Article 283(2) of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the Bihar Financial rules, 1950 Rule 131J sub rule(c) (as amended from time to time):-

1. *Short title, extent and commencement.*—(1) These may be called The Bihar Financial (Amendment) Rule, 2016.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. The words "**if only one tender remains**" provided in Rule 131J sub rule(c) of Bihar Financial Rules, 1950 vide Finance Department Notification no. 1682/F dated 01.03.2016 shall be substituted by the words "**If only one tender remains or no tender is received in the first bid.**" Accordingly the provisions will be as follows:-

"After evaluating the technical bids received by the purchaser department by the competent committee or authority, if only one tender remains or no tender is received in the first bid for evaluation of financial bid then re-tender shall be invited for it immediately. If after inviting re-tender also, only one tender remains for evaluation of financial bid after technical evaluation, then the matter will be disposed off by the authority of one level above of the competent authority"

By order of the Governor of Bihar,

RAHUL SINGH,

Secretary (Expenditure).

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 806-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>